



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]
No. 200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

का.आ.224(अ).—केंद्रीय सरकार, भूमिगत रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (इसके पश्चात इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2458 (अ) दिनांक 14 अगस्त, 2013 के अधीन 14 अगस्त, 2013 से केरल राज्य के कोच्चि महानगर क्षेत्र के लिए अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की अवधि विस्तारित की थी ;


अतः अब केंद्रीय सरकार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची में कोच्चि महानगर क्षेत्र के लिए कोच्चि मेट्रो रेल कॉरिडोर चरण-1 के निम्नलिखित मेट्रो सरेखण को शामिल करती है, नामतः :-

“कोच्चि, महानगर क्षेत्र

कोच्चि भूमिगत रेल कॉरिडोर- चरण -I

कॉरिडोर -I (आलुवा-पेट्टा)	आलुवा, पुलिनद्वादु, कंपनिपडी, अंबाटुक्काव मुट्टम, कलमशेरी कस्वा, कोचीन विश्वविद्यालय, पत्तडिपालम, एडप्पल्ली चंगनपुङ्गा पार्क, पालारिवटम, जेलएन स्टेडियम, कलूर, लिस्सी, एम.जी.रोड, महाराजा महाविद्यालय, एर्नाकुलम साऊथ, कडवन्ना वैटिला, ताईकुडम, पेट्टा।
डिपो	मुट्टम में डिपो”

कोच्चि मेट्रो के मार्ग का नक्शा
Kochi Metro Route Map



[फा० सं के—14011/23/2015—एमआरटीएस-II]

अम्बुज बाजपेयी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2016


S.O.224(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had extended the application of the provisions of the said Act to the Metropolitan area of Kochi in the State of Kerala, with effect from the 14th day of August, 2013 vide notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development, number S.O. 2458 (E) dated the 14th August, 2013;

Now, Therefore, in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the said Act, the Central Government hereby adds the following metro alignment of Kochi Metro Rail Corridors Phase-I in respect of the Metropolitan area of Kochi in the Schedule to the said Act, namely:—

“The Metropolitan Area of Kochi

Kochi Metro Rail Corridors- Phase-I	
Corridor –I (Aluva-Petta)	Aluva, Pulinchodu, Companypady, Ambattukavu, Muttom, Kalamassery Town, Cochin University, Pathadipalam, Edapally, Changampuzha Park, Palarivatom, JLN Stadium, Kaloor, Lissie, M.G. Road, Maharaja’s College, Ernakulam South, Kadavanthra, Vytila, Thaikoodam, Petta
Depot	Depot at Muttom”

Kochi Metro Route Map



[F.No.K-14011/23/2015-MRTS-II]
AMBUJ BAJPAI, Under Secy.